

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फ़ैक्स :- 0151-2226906, फ़ोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / निर्माण / 2022-23 / 12295

दिनांक 20/5/22

ई- निविदा-सूचना सं० 37/2022-23


नगर निगम बीकानेर की ओर से विभिन्न कार्यों (कुल 01 कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "एए", "ए" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.bikanermc.org Web site www.SPPP.raj.nic.in से व <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।
निविदा की अनुमानित लागत :-30.00 लाख

क्रमांक / निर्माण / 2022-23 /
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् निदेशक, जनसम्पर्क एवं प्रकाशन विभाग, राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन कम से कम स्पेस में राज्य सरकार की प्रकाशन नीति के अनुरूप एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र, एक मुख्य राज्य स्तरी दैनिक समाचार पत्र बीकानेर संस्करण में प्रकाशन करावें।

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर
दिनांक

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फ़ैक्स :- 0151-2226906, फ़ोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक/निर्माण/2022-23/12296

दिनांक 20/6/22

ई- निविदा-सूचना सं० 37/2022-23

नगर निगम बीकानेर की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "एपे", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट www.bikanermc.org Website www.SPPP.raj.nic.in से व <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

निविदा कार्य :	1	बीकानेर नगर निगम के जोन नं० 03 (वार्ड नं० 51,52,66,67,69,70,77) में विभिन्न स्थानों पर सीवर लाईन, ढक्कन, चैम्बर मरम्मत, लाईन मरम्मत, नाली/क्रोस मरम्मत का कार्य।
निविदा की अनुमानित लागत	:	30.00 लाख
ऑनलाईन निविदा फार्म मिलने की तिथि	:	23/06/22 09.30 बजे से 01/07/22 18:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा फार्म जमा कराने की तारीख	:	23/06/22 09.30 बजे से 01/07/22 18:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि	:	04/07/2022 को 17.00 बजे

इच्छुक संवेदको को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

क्रमांक/निर्माण/2022-23/12296-97
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् महापौर महोदया, नगर निगम, बीकानेर।
2. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर
दिनांक 20/6/22

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर


क्रमांक 13298
२०/६/२२

(टाईम फारमेट - 24 घण्टे)

ई- निविदा-सूचना सं० ३५/2022-23

निविदा कार्य :	1	बीकानेर नगर निगम के जोन नं० 03 (वार्ड नं० 51,52,66,67,69,70,77) में विभिन्न स्थानों पर सीवर लाईन, ढक्कन, चैम्बर मरम्मत, लाईन मरम्मत, नाली/क्रोस मरम्मत का कार्य।
निविदा की अनुमानित लागत	:	30.00 लाख
ऑनलाईन निविदा फार्म मिलने की तिथि	:	२३/०६/२२ 09.30 बजे से ०१/०७/२२ 18:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा फार्म जमा कराने की तारीख	:	२३/०६/२२ 09.30 बजे से ०१/०७/२२ 18:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि	:	०५/०७/२२ को 17.00 बजे

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर



(वेबसाईट पर अपलोड हेतु)

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फ़ैक्स :- 0151-2226906, फ़ोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / निर्माण / 2022-23 /

दिनांक

ई- निविदा-सूचना सं० 35 / 2022-23

नगर निगम बीकानेर की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "एए", "ए" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट www.bikanermc.org Website www.SPPP.raj.nic.in से व <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

जिला	कार्य/पैकेज का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	कार्य की अवधि
बीकानेर	बीकानेर नगर निगम के जोन नं० 03 (वार्ड नं० 51,52,66,67,69,70,77) में विभिन्न स्थानों पर सीवर लाईन, ढक्कन, चैम्बर मरम्मत, लाईन मरम्मत, नाली/क्रोस मरम्मत का कार्य।	30.00	12 माह

निविदा प्रपत्रों को वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।

नोट :- स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के अन्तर्गत उपर्युक्त श्रेणी में रजिस्टर्ड फर्म एवं नगर निगम बीकानेर संभाग में रजिस्टर्ड "डी" क्लास फर्म 15.00 लाख तक के कार्य एवं "सी" क्लास फर्म 50.00 लाख तक के कार्य एवं "बी" क्लास फर्म 1/2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवाने पर एवं अन्य विभागों के "एए" अथवा "ए" श्रेणी के संवेदक 2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवाकर निविदा में भाग ले सकते हैं।

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

निविदा शर्तें

1. स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के अन्तर्गत उपर्युक्त श्रेणी में रजिस्टर्ड फर्म एवं नगर निगम बीकानेर संभाग में रजिस्टर्ड "डी" क्लास फर्म 15.00 लाख तक के कार्य एवं "सी" क्लास फर्म 50.00 लाख तक के कार्य एवं "बी" क्लास फर्म 1/2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवाने पर एवं अन्य विभागों के "एए" अथवा "ए" श्रेणी के संवेदक 2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवाकर निविदा में भाग ले सकते हैं।
2. निविदा प्रपत्रों हेतु डाउनलोड की अवधि 23/06/22 09.30 बजे से 01/07/22 18:00 बजे तक होगी।
3. (अ) निविदा प्रपत्र फॉरमेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर 23/06/22 09.30 बजे से 01/07/22 18:00 बजे तक जमा करवाये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदाएं, इलैक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अधिशाषी अभियंता, नगर निगम, बीकानेर निर्माण अनुभाग में 04/07/22 को 17:00 बजे बाद खोली जावेगी।
4. यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।
(अ) निविदा प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
(ब) इलैक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया में प्रीबीड मीटिंग का प्रावधान नहीं है।
5. अधिशाषी अभियंता, नगर निगम, बीकानेर निर्माण अनुभाग कार्यालय में संवेदक द्वारा 23/06/22 09.30 बजे से 01/07/22 18:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित है।
6. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है आरपीडब्ल्यू ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होगी।
8. 10 लाख या अधिक लागत के कार्यों की Defect Liability Period 05 वर्ष का होगा।
9. RTPP एक्ट 2012, नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे। RTPP 2013 के नियम 75A के अनुसार कार्य में दर 15 प्रतिशत से अधिक नीची आने पर बिड की 85 प्रतिशत राशि में से भरी गई बिड के अन्तर राशि का 50 प्रतिशत की राशि अतिरिक्त पी0जी0 के रूप में अनुबंध से पूर्व जमा कराना आवश्यक होगा।
10. निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :-

कार्य की अनुमानित राशि (लाखों में)	शुल्क
नाम	आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर।
10 लाख तक	500 / -
10 लाख से अधिक	1000 / -


11. प्रासेसिंग फीस निम्नानुसार निर्धारित है :-

कार्य की अनुमानित राशि (लाखों में)	शुल्क
नाम	Managing Director, RISL, Jaipur
50 लाख तक	500 / -
50 लाख से अधिक	1000 / -

12. निविदा शुल्क, प्रासेसिंग फीस एवं धरोहर राशि के भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाईन ही होगी।
13. निविदा हेतु ऑनलाईन भुगतान नगर निगम की वेबसाइट www.bikanermc.org पर PAY ONLINE ऑप्शन पर होगा।

14. ऑनलाईन भुगतान हेतु संबेदक को नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org पर **PAY ONLINE** पर भुगतान किये जाने के पश्चात् भुगतान रसीद, फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं फर्म का जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र को ऑनलाईन साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
15. निविदादाता द्वारा निविदा दस्तावेज मय कार्य का "G" Schedule की प्रति को हस्ताक्षर मय नाम, तकनीकी निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है अन्यथा हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
16. ऑनलाईन पेमेंट भुगतान के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके के भुगतान करने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
17. निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क Non Refundable होगा।
18. निर्धारित शुल्क से कम भुगतान करने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
19. किसी टंकणीय त्रुटि के कारण का के जी अनुसूची की विभिन्न इकाई की दरे सम्बंधित एस0ओ0आर0/बी0एस0आर0 की दरें मानी जावेगी।
20. निविदा प्रपत्र 02 कवर में होगा। यदि संबेदक द्वारा निविदा प्रपत्र अनुसार निविदा अपलोड करते समय वांछित प्रपत्र संलग्न नहीं किये जाते हैं तो उस निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
21. ई- टेन्डरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश :-
- अ - इन निविदाओं में इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं।
- ब - निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- स- निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
- द- ऑन लाईन निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या - 3 के अनुसार खोली जायेगी।
- य - इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
- र - कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिक जमा कराने में किसी कारण विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- ल - टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।


आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर



Municipal Corporation , Bikaner.

Name of Work :- बीकानेर नगर निगम के जोन नं० 03 (वार्ड नं० 51,52,66,67,69,70,77) में विभिन्न स्थानों पर सीवर लाईन, ढक्कन, चैम्बर मरम्मत, लाईन मरम्मत, नाली/क्रोस मरम्मत का कार्य।

Name of Contractor :-

Date of Sales : As per NIT	Date of Opening : As per NIT
Tender Cost Rs 3000000/-	Earnest Money Rs. 2% or 1/2%
Earnest Money Cheque Draft No. :	Date :
Earnest Money M.C.B. Receipt No. :	Date :
Earnest Fees M.C.B. Receipt No. :	Date :

"G" Schdule

S. No.	Item Code	Item	Qty.	Unit	Rate	Amount
1.	SOR 2017 17.1.1.1	Earth work for Sewer line and Manhole in excavation in foundation, trenches manholes, road side chambers etc. including dressing of sides and ramming of bottoms, including getting out the excavated material, refilling after laying pipe/ foundation and disposal of surplus excavated material at a lead upto 50m suitable site as per direction of Engineer for following depths, below natural ground / Road top level including allowances for any additional excavation beyond the drawings (measurement for payment to be as per standard drawings), re-handling of material/earth to complete the task. In all types soils/ saturated soil such as moorum, sand, sandy silt, clay, black cotton soil, kankar, etc. Depth up to 1.5 m	01.00	Cum	197.00	197.00
2.	17.1.1.2	depth of excavation above 1.5 m and upto 3.0 m over item no 17.1.1.1	01.00	Cum	211.00	211.00
3.	17.1.1.3	depth of excavation above 3.0 m and upto 4.5 m over item no 17.1.1.1	01.00	Cum	228.50	228.50
4.	17.1.1.4	depth of excavation above 4.5 m and upto 6.0 m over item no 17.1.1.1	01.00	Cum	252.00	252.00
5.	BSR 1.27.1&1.2 7.2/B-7	Pumping out water caused by springs, tidal or river seepage, broken water main or drains and the like with pumping set of following H.P. including P.O.L./ Power consumption etc. complete. 5 to 9 H.P. .	01.00	Hour	151.00	151.00
6.	2.4.1	Demolishing brick work manually/ by mechanical means including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metres lead as per direction of Engineer-in-charge. Lime Concrete, cement concrete grade M-10 (1:5:10) and below.	01.00	Cum	264.00	264.00
7.	SOR 2017 3.1.1	Demolishing brick work manually/ by mechanical means including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metres lead as per direction of Engineer-in-charge. In cement Mortar.	01.00	Cum	284.00	284.00
8.	3.34	Dismantling old plaster or skirting raking out joints and cleaning the surface for plaster including disposal of rubbish to the dumping ground within 50 metres lead.	01.00	Sqm	21.00	21.00
9.	4.23	Silt clearance of drains, channels and canals with lift 1.5 Mtr and lead up to 50 Mtr.	01.00	Cum	237.00	237.00
10.	1.1.1	Carriage of Materials by mechanical transport including loading, unloading and stacking :: 5 Km	01.00	Cum	165.00	165.00
11.	4.26	Providing and fixing Barricading at site of work for restricting the general public using 80-100 mm dia Wooden Ballies as vertical post with average spacing of 1.80 meter between two vertical posts, having height	01.00	Mtr.	84.00	84.00

		at least 1.5 m above road/ ground level and at least 30-45 cm below road/ ground level by making suitable size hole in road/ ground, providing and fixing two rows of 80-100 mm Wooden Ballies as horizontal members with jute russies. Both vertical and horizontal members shall be painted in red and white colour strips as per approved pattern as and when it becomes shabby but at least after every alternate shifting at new location. After shifting/ removal of barricading holes shall be filled up properly and site is to be cleared in all respect. (Note: measurement is to be done in linear basis)				
12.	21.1.7	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level : 1:4:8 (1 Cement : 4 fine/ coarse sand : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size)	01.00	Cum	3360.00	3360.00
13.	13.1.2	Brick masonry work in cement mortar with mechanical mixer with First class bricks (min. 10.5 Mpa) in foundation (at any level) complete as per drawing and technical specification and as per clause 1000 & 1300 of MoRT&H specification including all scaffolding material, labour, machinery but excluding pointing and plastering. In cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)	01.00	Cum	4310.00	4310.00
14.	30.3.1	Cement concrete flooring 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded 20mm nominal size stone aggregate) finished with a floating coat of neat cement including cement slurry, but excluding the cost of nosing of steps etc. complete. 40mm thick	01.00	Sqm	292.00	292.00
15.	32.3.2	Cement plastering including T&P, scaffolding, material and complete labpour, including cost of water, curing, racking of joints etc. with 20 mm cement plaster of mix : 1:4 (1 cement : 4 fine/ coarse sand)	01.00	Sqm	210.00	210.00
16.	21.8	Providing and laying damp-proof course 40mm thick with cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20mm nominal size).	01.00	Sqm	259.00	259.00
17.	26.8	30mm red sand stone sun-shade (chisel-dressed) supported on red sand stone brackets, fixed in walls with cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) including finishing complete.	01.00	Sqm	1060.00	1060.00
18.	21.1.3	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level : 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size)	01.00	Cum	4280.00	4280.00
19.	29.1	Structural steel work in single section fixed with or without connecting plate including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer all complete.	01.00	Kg	60.00	60.00
20.	13.24	Providing and laying TMT bar reinforcement at any level in foundation/ pile/ pile cap complete as per drawing and clause 1600 of MoRT&H Specification including all material, labour and machinery.	01.00	Tonne	51400.00	51400.00
21.	13.5.1	Providing, laying and compacting design mix plain/ reinforced cement concrete of specified grade in foundation/ leveling course/ pile cap using batching plant, transit mixer and concrete pump and vibrater including cost of form work, complete as per drawing and technical specifications as per clause 1100, 1500,1700,2100 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, and maintenance of diversion. Grade M-20	01.00	Cum	4690.00	4690.00
22.	22.1.3	Centring and shuttering with plywood or steel sheet upto two stories or height upto 7.5 metre above plinth level including strutting, propping etc. and removal of form for : Suspended floors, roofs, landings, balconies and access platform.	01.00	Sqm	287.00	287.00
23.	SOR 2017 17.19.	Providing at site, lowering & laying in trenches, aligning & jointing of RCC pipes NP3 class (with s/s ends) IS: 458 - 1988 (amended up to date) marked and pipes from 300 mm upto 2000 mm manufactured through vertical casting process all levels with Rubber gaskets (EPDM/SBR) for sewer lines as per IS: 5382 (including cost of Rubber gaskets lubricants) as per drawing, sectional hydro testing of the sewer pipe line (including cost and conveyance of water to site for	01.00	Mtr	521.00	521.00

		testing) etc., complete as directed by Engineer. 200 mm internal diameter				
24.	17.19.3	250 mm internal diameter	01.00	Mtr	732.00	732.00
25.	17.19.4	300 mm internal diameter	01.00	Mtr	1010.00	1010.00
26.	17.19.5	350 mm internal diameter	01.00	Mtr	1510.00	1510.00
27.	17.19.7	450 mm internal diameter	01.00	Mtr	1740.00	1740.00
28.	17.19.9	600 mm internal diameter	01.00	Mtr	2530.00	2530.00
29.	SOR 2017 17.28.3	Providing granular bedding having width = outer dia of pipe (Bc) + 500mm, thickness below pipe = 0.25Bc or 100mm (whichever is higher) and haunching = 0.5Bc, with graded hard crusher broken stone of 100% passing through 20mm sieve, 20 to 50 % passing through 10mm sieve and 100 % retain on 6.3mm sieve, laying in layers of thickness 10/15cm including ramming, consolidation etc complete for all type of pipes of following sizes as per drawing and or as directed by Engineer. 200 mm internal diameter.	01.00	Mtr	133.00	133.00
30.	17.28.4	250 mm internal diameter	01.00	Mtr.	149.00	149.00
31.	17.28.5	300 mm internal diameter	01.00	Mtr.	170.00	170.00
32.	17.28	350 mm internal diameter	01.00	Mtr.	227.00	227.00
33.	17.28	450 mm internal diameter	01.00	Mtr.	289.00	289.00
34.	17.28	600 mm internal diameter	01.00	Mtr.	404.00	404.00
35.	4.13	Earth filling with available surplus soil excavated from foundations and taken only from outside of building plinth in layers not exceeding 20cm in depth, consolidating each deposited layer including ramming and watering and consolidation with lead up to 50 m and lift upto 1.5 m.	01.00	Cum	98.00	98.00
36.	17.72.1	Supplying & fixing 560mm dia SFRC manhole frame & cover as per IS : 12592-2002 in existing manholes including grouting the frame in PCC M-15 complete in all respect as directed by the Engineer. HD 20	01.00	Each	2400.00	2400.00
37.	17.34 17.34.1	Providing and constructing of SEWER-BRICK masonry circular manholes of "Type-A" with internal dia 0.90m and depth upto 1.65m having 230mm thick sewer brick masonry wall in cement sand mortar 1:4, including concreting PCC M-10 grade (1:4:8) for 225mm thick foundation including curing compaction and form work etc complete, PCC M15 for benching and channel portion, RCC M20 for 200mm thick cover slab including reinforcement, PCC M20 for fixing the manhole frame and cover using stone aggregate 20mm nominal size, 20mm thick inside and outside plaster in C. M. 1:3, inside plaster finished with floating coat of neat cement, vata in CM1:1 around pipe entering and leaving the manhole and also at the junction of masonry and concrete slab, providing and fixing of SFRC foot steps of approved make at every 0.30m height fixed in CM 1:3, supplying and fixing heavy duty SFRC manhole frame and cover as per IS 12592 (Part I and II) having clear opening of 560mm, including refilling of Jhiri, including curing, watering, ramming, hydro testing of manhole, conveyance & cost of water, and dewatering complete as directed by the Engineer. Note:- Excavation of earth work and road cutting for manhole will be measured and paid separately. Manhole "Type-A" of depth 0.90 m	01.00	Each	11500.00	11500.00
38.	17.34.2	Providing and constructing extra depth of manhole "Type-A" for depth beyond 0.90 m and upto 1.65 m with SEWER-BRICK masonry including 20mm plaster inside and outside as per drawing and direction of Engineer.	01.00	Mtr.	5800.00	5800.00
39.	17.35 17.35.1	Providing and constructing of SEWER-BRICK masonry circular manholes of "Type-B" with internal dia 1.20m and depth upto 2.50m having sewer brick masonry wall 230mm thick upto 1.5m, 345mm thick from 1.50m to 2.50m in cement sand mortar 1:4, including concreting PCC M-10 grade (1:4:8) for 225mm thick foundation including curing compaction and form work etc complete, PCC M15 for benching and channel portion, RCC M20 for 200mm thick cover slab including reinforcement, PCC M20 for fixing the manhole frame and cover using stone aggregate 20mm nominal size, 20mm thick inside and outside plaster in	01.00	Each Manhole	22900.00	22900.00

		C. M. 1:3, inside plaster finished with floating coat of neat cement, vata in CM1:1 around pipe entering and leaving the manhole and also at the junction of masonry and concrete slab, providing and fixing of SFRC foot steps of approved make at every 0.30m height fixed in CM 1:3, supplying and fixing heavy duty SFRC manhole frame and cover as per IS 12592 (Part I and II) having clear opening of 560mm, including refilling of Jhiri, including curing, watering, ramming, hydro testing of manhole, conveyance & cost of water, and dewatering complete as directed by the Engineer.				
		Manhole "Type-B" of depth 1.70 m				
40.	17.35.2	Providing and constructing extra depth of manhole "Type-B" for depth beyond 1.70 m and upto 2.50 m with SEWER-BRICK masonry including 20mm plaster inside and outside as per drawing and direction of Engineer.	01.00	Mtr.	10100.00	10100.00
41.	17.27.2	Providing, lowering, laying, aligning, fixing in position and jointing at all level/ depths full round HDPE DWC (double wall corrugated) pipes of SN8 grade as per IS 16098 (Part 2) amended upto date in trenches in complete including all material, labour, sectional hydro testing (including the cost and conveyance of water to site for testing) and commissioning as per Technical Specifications, drawings and as per direction of Engineer. 200 mm ID	01.00	Mtr.	577.00	577.00
42.		250 mm ID	01.00	Mtr.	968.00	968.00
43.	17.27.4	300 mm ID	01.00	Mtr.	1410.00	1410.00
44.	17.61.1	Construction of brick masonry cylindrical road side inspection chamber of 450mm dia (internal) with 230mm thick wall of brick masonry (75 class designation brick) in cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand), wall 230mm thick, filling of Jhiri, 20mm thick inside and outside plastering with CM (1:3), inside plaster finished with neat coat of cement, with 100 mm thick PCC M10 in foundation, 75mm thick PCC M15 flooring, precast SFRC/RCC circular 450mm dia MD manhole frame and cover embedded in 200mm thick PCC M20 grade concrete, including providing and fixing 2 Nos 110mm OD, 0.5m long uPVC pipe pieces of stiffness class SN 8 as per IS 15328 and plugging the same etc complete as per approved drawing and/or directed by Engineer. BM Road side inspection chamber of 450mm depth	01.00	Each	4560.00	4560.00
45.	17.69	Raising circular manhole with circular cover 560mm dia and frame slab to required level including dismantling existing slab, taking out the existing CI frame & cover of manhole and raising it upto ground/ road level, re-fixing of frame and cover in M15 (1:2:4) concrete all around the frame, including making good the damage, form work, curing, complete as directed by Engineer.	01.00	Each	445.00	445.00
46.	17.70	Raising precast circular manhole cover and frame by taking out existing precast frame and cover, providing and fixing precast SFRC circular spacer of height 100/125/150mm, re-fixing existing manhole cover frame and cover with cement sand mortar (1:3), including making good the damage, complete as directed by Engineer.	01.00	Each	1510.00	1510.00
47.	7.3.1	Providing, laying and spreading of granular sub-base by providing coarse graded Material (Table 400-2), spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface, mixing BY MIX IN PLACE METHOD with rotavator at OMC, and compacting with vibratory roller to achieve the	01.00	Cum	984.00	984.00

		desired density, complete as per MoRT&H specification clause - 401 including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion. Grading I Material. 3270x0.10				
48.	7.6	Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete. Crusher broken - Grade-II (63-45mm) 3270x0.075	01.00	Cum	1320.00	1320.00
49.	7.5.4	Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion Complete Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm).	01.00	Cum	1400.00	1400.00
50.	12.1	Filling of Pot- holes and patch repairs with Built up Spray Grout in two layers with 53-22.4mm size of aggregate upto 75mm depth and removal of all failed material, trimming of completed excavation to provide firm vertical faces, cleaning of surface, painting of tack coat on the sides and base of excavation as per clause 503, back filling the pot holes with hot bituminous material as per clause 506, compacting with 8-10 tonne power roller, trimming and finishing the surface to form a smooth continuous surface complete using Bitumen VG-grade 30 as per clause 503, 506 & 3004.2 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion.	01.00	Sqm	238.00	238.00
51.	17.73.1	Supplying & fixing 560mm dia SFRC manhole cover as per IS : 12592-2002 in existing manholes frame complete in all respect as directed by the Engineer. HD-20	01.00	Each	1270.00	1270.00
52.	4.10.1.1	Earth work in excavation in foundation, trenches etc. including dressing of sides and ramming of bottoms, including getting out the excavated material, refilling after laying pipe/ foundation and disposal of surplus excavated material at a lead upto 50m suitable site as per direction of Engineer for following depths, below natural ground / Road top level. In all types soils/ saturated soil such as moorum, sand, sandy silt, clay, black cotton soil, kankar, etc. Depth upto 1.5 m	01.00	Cum	164.00	164.00
53.	2.4.2	Dismantling of existing structures like culverts, bridges, retaining walls, CC road and other structure comprising of masonry, cement concrete, wood work, steel work, including T&P and scaffolding wherever necessary, sorting the dismantled material, disposal of unserviceable material and stacking the serviceable material with all lifts and lead of 50 metres as directed by Engineer.	01.00	Cum	427.00	427.00

54.	21.1.2	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level : 1:1½:3 (1 Cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size).	01.00	Cum	4700.00	4700.00
55.	.26 29.26.2	Steel work welded in built up sections/ framed work including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer using structural steel etc. as required. In gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets, gates and similar works.	01.00	Kg.	87.50	87.50
56.	12.6.1	Providing and fixing of reinforced Ferro-Cement drain covers designed for 'AA' class loading duly marked on cover with adequate steel reinforcement having thickness 75mm to 150mm anti corrosive bitumen painted M.S. plate, Rim and M.S. lifting hooks, Admixtures like plasticizer, bond improving compound, shrinkage, resistance compound, abrasion resistant complete as per approved design etc. Standard Size 600x800mm (75mm thick) for span 300 to 450mm	01.00	Sqm	1550.00	1550.00
57.	12.6.2	Standard Size 1000x800mm (100mm thick) for span 451 to 700mm	01.00	Sqm	2560.00	2560.00
58.	12.6.3	Standard Size 1500x600mm (125mm thick) for span 701 to 1200mm	01.00	Sqm	2910.00	2910.00
59.	12.6.4	Standard Size 2100x500mm (150mm thick) for Span 1201 to 1500	01.00	Sqm	3450.00	3450.00
total						165046.00
Up to Rs. 30.00 Lacs						

I/We Tendering above work @ above/below "G" Schedule.

Signature of Tendering Contractor